SURAJ INDUSTRIES LTD

Registered Office -Plot No. 2 Phase-3, Sansarpur Terrace, Distt. Kangra, H.P.-173212 CIN: L26943HP1992PLC016791

Email id- secretarial@surajindustries.org; Website- www.surajindustries.org Telephone No: 01970-256414

Date: 04.09.2021

To, The Executive Director BSE Limited Floor 25, P J Towers Dalal Street Mumbai-400001

Scrip Code: 526211

Sub: Newspaper Advertisement regarding 29th Annual General Meeting of M/s Suraj Industries Ltd through Video Conferencing/Other Audio visual means

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended) read with Part A, Para A of Schedule III of said Regulations, we hereby submit the copy of newspaper publications made on September 04, 2021 in the following Newspapers in relation to the 29th AGM of the Company scheduled to be held on Tuesday, September 28, 2021 through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM").

- 1. Financial Express (English)
- 2. Jansatta (Hindi)

Kindly take note of the same and acknowledge the receipt.

Thanking You, Yours Truly, Suraj Industries Ltd

formed...

Bhanumathy Ramachandran (Company Secretary)

SEASONS TEXTILES LIMITED CIN - L18101DL1986PLC024058

Regd. Off: 26, Feroze Gandhi Road, Lower Ground Floor, Lajpat Nagar - III, New Delhi -110 024 Phone: 0120-4690000, Fax: 0120-4351485 Website: www.seasonsworld.com, E mail: cs.stl@seasonsworld.com NOTICE OF BOOK CLOSURE DATES

Notice is hereby given under section 91 of the Companies Act 2013 and rule made thereunde and regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclusures Requirments) Regulations 2015, that The Register of Members and Share Transfer Books for equity shares of the Company shall remain closed from Thursday September 23, 2021 to Tuesday September 28, 2021 (both days inclusive) for the purpose of 35" Annual General Meeting of the company.

Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

undersigned on any working day during normal office hours.

SHRI GANG INDUSTRIES AND ALLIED PRODUCTS LIMITED

CIN: L01112UP1989PLC011004

Regd. Office: A-26 UPSIDC Industrial Area, Sikandrabad, Bulandshahar, Uttar Pradesh-20320

Corporate Office: F-32/3. Okhla Industrial Area. Phase-II. New Delhi-110020

Email id:- secretarial@shrigangindustries.com; website- www.shrigangindustries.com

Contact No: 05735-222568/011-42524454

NOTICE OF 32Nd ANNUAL GENERAL MEETING

n view of continuing Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide it

General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 read with Circular Nos. 14/2020, 17

2020 and 20/2020 dated April 8, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020 respectively ("MC/

Circulars') permitted to hold Annual General Meeting (AGM) through Video Conferencing

"VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") facility, without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013

"Act") and Rules framed thereunder, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements

Regulations, 2015 ["SEBI (LODR) Regulations"] read with CircularNo. SEBI/HO/CFD/CMD1

CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11, Dated January

2021 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars") and MC/

Circulars, the Board of Directors of the Company has decided to convene the 32nd AGM of

the Company on Thursday, September 30, 2021 at 3:30 P.M. through VC /OAVM facility

To comply with the provisions of SEBI and MCA Circulars, the Notice of 32nd AGM and Annua

Report of the Company for the Financial Year ended March 31, 2021 along with login details

for joining the AGM through VC / OAVM facility including e-voting will be sent only by e-mail to

all those Members, whose e-mail address are already registered with the Company or Registra

and Share Transfer Agent or with their respective Depository Participants ("DP"), Members

can join and participate in the AGM through VC/ OAVM facility only. The instructions for joining

the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members participating through VC / OAVM

facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the

Act. The Notice of the 32nd AGM and the Annual Report will also be made available or

Company's website (www.shrigangindustries.com), Stock Exchange's website

"CDSL" www.bseindia.com) and on the website of Central Depository Services (India) Limited

The Company is providing remote e-voting (prior to AGM) and e-voting (during the AGM) facility

to all its Members to cast their votes on all the resolutions set out in the Notice of AGM

Detailed instructions for remote e-voting and e-voting during the AGM is provided in the Notice

Members holding shares in physical form who have not registered their e-mail address with

the Company, can register their e-mail address for receipt of Notice of AGM, Annual Repor

and login details for joining the AGM through VC / OAVM facility including e-voting by sending

a request to Company's e-mail id at secretarial@shrigangindustries.com providing their name

olio number, scanned copy of the share certificate (front and back), self- attested scanner

copy of the PAN card and self-attested scanned copy of Aadhar Card) in support for registering

Members holding shares in demat form whose e-mail address are not registered are requester

to register their e-mail address for receipt of Notice of AGM, Annual Report and login details

for joining the AGM through VC / OAVM facility including e-voting with their DP only, as per the

process advised by their DP. The registered e-mail address will also be used for sending future

n case of any query regarding e-voting, Members may contact to Mr. Rakesh Dalvi, Manager

CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex

Mafatlal Mill Compounds, N.M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send al

email to helpdesk evoting@cdslindia.com or callon 022-23058542/43 or write an e-mail to

Compliance Officer of the Company at secretarial@shrigangindustries.com. The above

nformation is being issued forthe information and benefit of all the Members of the Company

BITS LIMITED

(CIN: - L72200DL1992PLC241971)

Regd. Office:- 711, 7th Floor, New Delhi House, 27, Barakhamba Road, New Delhi-110001

Email: bitsltd@gmail.com, Website: http://www.bits.net.in Tel. No. 011-43656567

Notice of 29th Annual General Meeting, Book Closure and

Remote E-Voting information

IOTICE is hereby given that the 29th Annual General Meeting ('AGM') of the members of Bits

Limited will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual means ("OAVM") or

Sunday, the 26th September, 2021 at 05:00 P. M. to transact the Ordinary Business, as set ou

n the Notice of AGM. The Notice of the Meeting, Annual Report for the Financial Year ended

March 31, 2021 and remote e-voting details have been sent in electronic mode to all the members

whose e-mail IDs are registered with the Company/RTA/Depository. The date of completion of

n case you have not registered your email ID with the Company/ Depository, please follow belo

instructions to register your email ID for obtaining Annual Report for Financial Year 2020-21 and

Physical Holding: Send a request to Registrar and Transfer Agents of the Company, Mas

Services Limited at info@masserv.com providing Folio number, Name of the shareholder, scanned

copy of the share certificate (Front and Back), PAN(Self attested scanned copy of PAN Card),

Please send your bank detail with original cancelled cheque to our RTA (i.e. Mas Services

Limited at T-34, 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020) along with letter

Demat Holding: Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address

as per the process advised by DP. Please also update your bank detail with your DP for dividend

These documents are also available on Company's website www.bits.net.in for download by the

members. Notice is hereby given in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies

Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended

and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

that the Company has offered e-voting facility for transacting all the business by National Securities

Depository Limited (NSDL) through their portal www.evoting.nsdl.com to enable the members to

cast their votes electronically. The remote e-voting period commences on Thursday, September

23, 2021 (10:00 A.M.) and ends on Saturday, September 25, 2021 (05:00 P.M.). No e-voting shall

be allowed beyond the said date and time. During this period members of the Company, holding

shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of September 19

2021, may cast their vote by remote e-voting. Any person, who acquires shares and becomes

member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date

i.e. September 19, 2021, may obtain the login ID and password by sending a request at

evoting@nsdl.co.in or RTA, Mas Services Limited at info@masserv.com. However, if the members

are already registered with NSDL for remote e-voting then they can use their existing user ID and

password for casting their vote. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting

thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed

to change it subsequently. The facility for voting through e-voting shall be made available at the

AGM and the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also

attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. Mrs. Pritika Nagi, Practicing

Company Secretary (Membership No. 29544 & CP No. 11279), Proprietor M/s. Pritika Nagi 8

Associates, Company Secretaries, has been appointed as Scrutinizer for the e-voting process. The

detailed procedure for remote e-voting is contained in the letter sent with the Notice of the AGM.

Any query/grievance relating to e-voting may be addressed to Mr. Surendra Singh Tangar, Company

Secretary and Compliance Officer, Bits Limited, 711, 7th Floor, New Delhi House, 27, Barakhamba

Road, New Delhi - 110001 Phone: 011-43656567, Email: bitsltd@gmail.com. NOTICE is also

hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, Rule 10 of the Companies

(Management & Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and

AADHASR (Self attested scanned copy of Aadhaar Card) for registering email address.

By order of the Board of Directors o

Kanishka Jain

(Company Secretary)

M/s Shri Gang Industries and Allied Products Limited

and is in compliance with the MCA Circulars and SEBI Circular.

email of the notices to the shareholders is 02nd September, 2021.

mentioning folio no. if not registered already.

payment by NACH if declare by company.

Place: New Delhi

Date: 03.09.2021

without the physical presence of the Members at a common venue.

available to redeem the secured asset/s

Place: Visakhapatnam

Date: 03-09-2021

Name of Borrower(s) / Legal Heir(s) / Legal Representative(s)

By Order of the Board of Directors For Seasons Textiles Limited (Inderjeet Singh Wadhwa) Chairman and Managing Director

loan, the following Secured Asset(s) have been mortgaged to HDFC Limited by the said Borrower (s) respectively.

Total Outstanding

Dues

(c)

Rupees Forty Two

akhs Seventy Two

Rs.42,72,772/-

BLOOMBERG September 3

RUSSIA BLOCKED ACCESS to six virtual private networks, including some of the world's most popular such services, as the government escalates its efforts to rein in the internet.

NordVPN and Express VPN were among the networks blocked for allowing "access to prohibited information and resources," communications

Description of Secured Asset(s) /

Immovable Property (ies)

All that the property bearing Plot No.178, Ireo Hamlet, Sector 98, SAS Naga

(Mohali), Punjab and measuring 252.83Sq Yards or 211.39 Sq.Mts as pe

details mentioned below: East 21.799 Plot No.179, West 21.788 Plot No.177

For Housing Development Finance Corporation Ltd.

PRITIKA AUTO INDUSTRIES LIMITED

Plot No. C-94, Phase-VII Industrial Focal Point, S.A.S. Nagar, Mohali, Punjab-160055

CIN: L45208PB1980PLC046738, Phone No. 0172-5008900

Email Id: compliance@pritikaautoindustries.com website: www.pritikaautoindustries.com

NOTICE OF 41¹⁷ ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 41" Annual General Meeting (AGM') of

the Company will be held on Wednesday, 29" September, 2021 at its

Registered Office situated at Plot No. C-94, Phase-VII, Industrial Focal

Point, S.A.S. Nagar, Mohali, Punjab - 160055 at 10.00 a.m., to transact

Notice of the AGM has been sent in electronic mode to the members

whose email IDs are registered with the Company/Depository

Participants. The Notice and Annual Report are available on the

Company's website www.pritikaautoindustries.com/investors.html and

on website of BSE www.bseindia.com NSE www.nseindia.com. Notice is

also available on NSDL at www.evoting.nsdl.com. The electronic

dispatch of Notice has been completed on 3" September, 2021. The

requirement of sending physical copy of Notice and Annual Report to the

Notice is also given that the Register of Members and the Share Transfer

books of the Company will remain closed from Saturday, 25° September,

2021 to Wednesday, 29" September, 2021 (both days inclusive) for the

Members holding shares either in physical form or in dematerialized

form, as on the cut-off date, may cast their vote electronically on all

resolutions as set out in the Notice of the AGM through electronic voting

system of National Securities Depository Ltd. (NSDL) from a place other

than the venue of AGM ("remote e-voting") or by voting at the AGM

i) The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic

means or at the AGM is 22" September, 2021. Any person, who acquires

shares of the Company and become member of the Company after

dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off

date, may obtain the user ID and password by sending a request to NSDL

at evoting@nsdl.co.in OR to Company's Registrar M/s Satellite

Corporate Services Pvt. Ltd. at info@satellitecorporate.com. A person

already registered with NSDL for remote e-voting can use existing user ID

ii) The remote e-voting shall commence on 25" September, 2021 at 9:00

a.m. & end on 28" September, 2021 at 5:00 p.m. The remote e-voting

module shall be disabled by NSDL thereafter and once the vote on a

resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to

change it subsequently. The facility for voting through ballot paper shall

be made available at the AGM. The members who have cast their vote by

remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not

iii) In case of any query/grievances members are requested to email

company's Registrar at info@satellitecorporate.com or contact Mrs.

Pallavi Mhatre, Manager, NSDL, at 022-2499 4545 or

pallavid@nsdl.co.in or write to NSDL at NSDL, Trade World, 'A' Wing, 4'

Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lowel Parel,

Mumbal - 400013. This notice is also available on the website of the

For Pritika Auto Industries Ltd

Harpreet Singh Nibber, Managing Director(DIN:00239042)

members has been dispensed with vide MCA/SEBI circulars.

through ballot paper. All the members are informed that:

and password for casting vote;

be entitled to cast their vote again:

company, BSE and NSE.

Place: Mohali

Date: 4/09/2021

the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the AGM.

Authorised Officer

North 9.700 Others Land, South 9.700 12 Mts Wide ROW (Street C)

watchdog Roskomnadzor said in a statement Friday. These include material Russian authorities have deemed as extremist as well as what the regulator said was information relating to

Russia has ramped up its attempts to control access to information in the run-up to parliamentary elections this month, deeming numerous independent media groups as

to punitive restrictions and regularly fining international platforms includ-

on internet traffic and provide users with anonymity and greater security. Roskomnadzor said it has created a "white list" for software and apps that

use VPNs for technical reasons that will be allowed to continue.

"Russia already has a long list of websites, messaging apps, and other digital services that are blacklisted, as well as a series of laws that threaten the prosecution of bloggers and allow authorities to ban websites without a court order," NordVPN said in an emailed statement. "Plans to block VPNs

are just another move to strengthen governmental control over online communications."

NordVPN destroyed its servers in Russia after the government sought access in 2019 and will continue to offer its products "through available channels," the statement said. Express VPN did not respond immediately to a request for comment.

> The move comes amid an increasingly harsh crackdown on opposition that began with the arrest of President Vladimir Putin's most vocal critic, Alexey Navalny, early this year. Since Navalny's detention, groups affiliated with him have been labeled extremist and most of his top aides have fled the country amid the threat of criminal prosecution.

Form No. INC-19 Notice

[[Pursuant to rule 22 the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

Notice is hereby given that in pursuance of clause (ii) sub-section (4) of section 8 of the Companies Act, 2013, an application has been made by M/s O2 Alliance Foundation to the Registrar o companies Delhi & Haryana at Delhi fo revocation of the license issued to it unde section 8(5) of the companies Act, 2013. After the cancellation of license the company will be required to add the word "Private Limited" to its

advisers (in India and overseas) to individuals, firms, commercial enterprises companies, corporations, government semi-government, local social or other organizations on technical, industrial commercial, marketing, legal, taxation costing, accounting, personnel (including selection of personnel) industrial, relation company law, excise, customs, import and export, investment or management matters.

3) Notice is nereby given that any person, firm company, corporation or body corporate, objecting to this application may communicate such objection to the Registrar at Delhi within thirty days from the date of publication of this notice, by a letter addressed to The Registrar o Companies Delhi & Haryana, 4th Floor, IFC Tower, 61-Nehru Place, New Delhi- 110019, a copy of which shall be forwarded to the Applican at the Registered office mentioned above.

For and on behalf of the Applican O2 ALLIANCE FOUNDATION AJIT ARAVINDAKSHA MENON

SAINIK FINANCE & INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: 129, Transport Centre, Rohtak Road, Punjabi Bagh, New Delhi - 110035

CIN: L26912DL1991PLC045449 Telephone No.- 011-28315036/0124-2719000 Fax No.- 011-28315044/ 0124-2719100

NOTICE OF 29th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE ETC.

Corporate Office: 7th Floor, Corporate Office Tower, Ambience Mall, N.H.48, Grurugram-122002 E-mail: info@sainik.org Website: www.sainikfinance.com

Senior Director (Exams)

The 29th Annual General Meeting of the Company (AGM") will be convened or Thursday, 30th September, 2021 at 11:15 a.m. through Video Conferencing ("VC") Other Audio Visual Means ("OAVM") Facility to transact the ordinary and specia business, as set out in the Notice of the AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and SEB (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with MCA General Circular Nos.14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2021 dated 8th Apri 2020, 13th April, 2020, 5th May, 2020 and 13th January, 2021 respectively issued

by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circular/s") and Circular No. SEBI/ HO CFD/ CMD1/ CIR/ P/ 2020 /79 dated 12th May 2020 and SEBI/ HO/ CFD/ CMD2 CIR/ P/ 2021 /11 dated 15th January, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), without the physical presence of the Members at a common venue. The Members can join and participate in the AGM through VC/ OAVM facility only. The Notice of the AGM, Annual Report for the year 2020-2021 including Audited Annual Financial Statements for the financial year ended 31st March, 2021 ("Annual Report") has been sent by email on Friday, 3rd September, 2021 to those Members whose email addresses are registered with the Companyor with their respective

Agent, Indus Portfolio Private Limited, in accordance with MCA Circulars and SEBI Circulars. The requirements of sending physical copy of the Notice of the AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circulars and SEBI Circulars. The instructions for joining the AGM and manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through the e-voting system during the AGM are

provided in the Notice of AGM. Members participating through VC/OAVM shall be counted for purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Companies

the cut-off date i.e. Friday, 24th September, 2021 may cast their vote electronically on the ordinary and special business, as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system ("remote e-Voting") of National Securities Depository Limited ("NSDL").

All members arealso informed that:

Voting during the AGM;

be transacted through voting by electronic means; b) the remote e-Voting shall commence on Sunday, 26th September, 2021 at 9:00

c) the remote e-Voting shall end on Wednesday, 29th September, 2021 at 5:00

the cut-off date, for determining the eligibility to vote through remote e-Voting or

e) any person, who becomes Member of the Company after sending the Notice of the AGM by email and holding shares as on the Cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if he/she is already registered with NSDL for remote e-voting then he/she can use his/her existing User ID and password for casting the vote

Members may also note that: a) the remote e-Voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently; b) the Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the AGM may participate in the AGM through VC/OAVM Facility but shall not be entitled to cast their vote again through the e-Voting system during the AGM; c) the Members participating in the AGM and who had not cast their vote by remote e-Voting, shall be entitled to cast their vote through e-Voting system during the AGM; and d) a person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting, participating in the AGM through VC/OAVM Facility and e-

g) the Notice of the AGM and the Annual Report are available on the website of the Company at www.sainikfinance.com and the website of BSE Limited at www.bseindia.com. The Notice of the AGM is also available on the website of NSDL at https://www.evoting.nsdl.com

 in case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.:1800-222-990 and 1800 22 44 30 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Mr. Amit Vishal, Senior Manager or Ms Pallavi Mhatre, Manager National Securities Depository Ltd., Trade World, "A". Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013, at the designated email IDs evoting@nsdl.co.in or AmitV@nsdl.co.in or pallavid@nsdl.co.in or at telephone nos. +91-22-2499 4360 or +91-99202 64780 or+91 22 2499 4545, who will also address the grievances connected with the voting by electronic means. Members may also write to the Company Secretary at the Company's

those Members holding shares in physical form, whose email addresses are not registered with the Company, may register their email address by sending. scanned copy of signed request letter to the Registrar and Transfer Agents of the Company, IPPL at rs.kushwah@indusinvest.com mentioning Folio No. Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self- attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self- attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address, and scanned copy of the cancelled cheque bearing the name of the first shareholder shall be provided to update the Bank Account details of the Shareholders. Members holding shares in demat form can update their email address and other details with their respective Depository Participant.

The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Saturday 25th September, 2021 to Thursday, 30th September 2021 (both days inclusive) for its annual closing for the purpose of Annual General

For Sainik Finance & Industries Limited

Russia blocks NordVPN, Express VPN in bid to control content

HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD.

Branch : D.No.10-50-19/1, 1st & 2nd Floor, Soudamani , Opp:HSBC, Waltair Main Road, Siripuram,

Visakhapatnam -530003 Phone:0891-6799500 - CIN L70100MH1977PLC019916 - Website: www.hdfc.com

DEMAND NOTICE

Under Section 13 (2) of the Securitisation And Reconstruction Of Financial Assets And Enforcement Of Security Interest Act, 2002 (Act) read with

Whereas the undersigned being the Authorised Officer of Housing Development Finance Corporation Ltd. (HDFC Limited) under Securitisation

And Reconstruction Of Financial Assets And Enforcement Of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12)

read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued Demand Notices under Section 13 (2) of the said Act, calling upon the

Borrower(s) / Legal Heir(s) / Legal Representative(s) listed hereunder, to pay the amounts mentioned in the respective Demand Notice/s, within 60

days from the date of the respective Notice/s, as per details given below. The undersigned have, caused these Notices to be pasted on the premises

of the last known respective addresses of the said Borrower(s) / Legal Representative(s). Copies of the said Notices are available with

the undersigned, and the said Borrower(s) / Legal Heir(s) / Legal Representative(s), may, if they so desire, collect the respective copy from the

In connection with the above, Notice is hereby given, once again, to the said Borrower(s) / Legal Heir(s) / Legal Representative(s) to pay to HDFC

Limited, within 60 days from the date of publication of this Notice, the amounts indicated hereinbelow in their respective names, together with further

interest @ 18% p.a. as detailed in the said Demand Notices from the respective dates mentioned below in column (c) till the date of payment and / or

realisation, read with the loan agreement and other documents/writings, if any, executed by the said Borrower(s). As security for due repayment of the

Borrower(s) / Legal Heir(s) / Legal Representative(s) attention is invited to the provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time

(d)

17-AUG-2021

Immovable Property (ies), whether by way of sale, lease or otherwise without the prior written consent of HDFC Limited. Any person who contravenes

or abets contravention of the provisions of the Act or Rules made thereunder shall be liable for imprisonment and/or penalty as provided under the Act.

Regd. Office: Ramon House, H.T. Parekh Marg, 169, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400 020.

narcotics and child pornography.

"foreign agents" subject

ing Alphabet Inc.'s Google and Facebook Inc. for failing to remove content flagged as illegal.

VPNs help circumvent restrictions

National Testing Agency cream flor flore, flor steam, seen mean it can on right steam (An Autonomous Organization under the Department of Higher Education,

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी

Ministry of Education Gol) PUBLIC NOTICE Dated: 02.09.2021

The National Testing Agency (NTA) has been established by Ministry of Education, Govt. of India, as an independent/autonomous, self-reliant, and self-sustained premier testing organization.

for Inviting Online Application Form

IIFT MBA(IB) 2022-24 Entrance Examination

The Indian Institute of Foreign Trade (IIFT), established in 1963 by Ministry of Commerce and Industry, Govt. of India is one of the top business schools in the country renowned for skill building in the external trade sector of the India. The Institute is also a Category-I deemed to be university.

NTA will be conducting Computer Based Test for admission to IIFT-MBA (International Business) 2022-24 programme as per details given below:

Date of exam	5 December 2021(Sunday) 10.00 am to 12.00 noon			
Mode of xam	Computer Based Test (CBT)			
Pattern of exam	Multiple Choice Questions			
Exam centres	Exam will be conducted in 68 cities across India.			
Eligibility	Recognized Bachelor's degree of minimum 3 years' duration in any discipline with 50% marks in Graduation (45% for SC/ST/PwD candidates). Candidates appearing in the final year examination of Graduation can also apply. There is no age limit.			
Reservations	Reservation for SC/ST/OBC(NCL)/PwD/EWS/Kashmiri migrants as per Govt. of India rules.			
For Foreign Nationals & NRIs	Seats are reserved for Foreign Nationals & NRIs and the admission is considered on the basis of GMAT score and Interview.			
Submission of Online Applications Form & Application Fee	From 02.09.2021 to 15.10.2021 From 15.01.2022 to 15.03.2022 (For NRIs and Foreign Nationals)			

Others details such as Eligibility, Scheme of Exam, duration, intake, reservation, application fee, list of exam cities, important dates, admission procedure etc are contained in the Information Bulletin hosted on https://iift.nta.nic.in . Candidates who are desirous of applying may go through the Information Bulletin and apply online only at https://iift.nta.nic.in and also pay the applicable fee online during the period from 02.09.2021 to 15.10.2021 using Debit Card/Credit Cards/Net Banking/Paytm. For any clarifications, candidates can call NTA Help Desk at 011-40759000 or write to NTA at iiftmba-ib@nta.ac.in. Dr. Sadhana Parashar

davp 21354/11/0012/2122

TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED Contact Add.: 7th Floor Videocon Tower, Jhandewalan Extension, New Delhi -110055 India.

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY) (As per Rule 8(1) of the Security Interest Enforcement Rules, 2002)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Tata Capital Financial Services Ltd under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(2) read with rule 8 & 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a **Demand Notice dated 15th January**. 2020 as below calling upon the Borrowers to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of the said notice. The borrowers, having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers, in particular and the public, in general, that the undersigned has taken Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with rule 9 of the said Rules.

The borrower, in particular, and the public in general, are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Tata Capita Financial Services Limited, for an amount referred to below along with interest thereon and penal

Loan A/c No.	Name of Obligor(s)/Legal Heir(s)/ Legal Representative(s)	Amount as on Dated	Date of Possession 03-09-2021	
7922712	Vijay Singh Chauhan, S/o Budh Singh Chauhan, House No.284, (Near Torner Public School), Bhorgarh Narela, West Delhi-110040,	Rs.1,36,87,713.36/- as on 15th January, 2020		

Also At : Plot No. 36 & 37 Entire First & Second Floor, Nai Basti, Wright Ganj, Gt Road, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201001, Also At : Hall No.193, Gali No.3, Chalera Banger, Street No- 3, Vill Chhalera, Sector 44, Noida, Uttar Pradesh, Also At : Bangar, Sector- 44 Noida Uttar Pradesh Also At : Flat No. B-12 A, 04 12 A Floor, Tower B, Ace City, Plot No. Gh 01 Sector 1, Greater Noida Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh- 201306, Also At : Plot No 36 37 First And Second Floor Na Basti Wright Ganj G T Ghaziabad, Uttar Pradesh 201001 2. Uday Singh Chauhan, S/o Sh Budh Singh Chauhan, House No. 284, (near Tomer Public School), Bhorgarh Narela, West Delhi-110040 Also At : Plot No. 36 & 37 Entire First & Second Floor, Nai Basti, Wright Ganj, Gt Road, Ghaziabad Uttar Pradesh-201001, Also At : Hall No.193, Gali No.3, Chalera Banger, Street No. 3, Vill Chhalera, Sector 44, Noida, Uttar Pradesh, Also At : Bangar, Sector- 44 Noida Uttar Pradesh Also At : Flat No. B-12 A, 04 12A Floor, Tower B, Ace City, Plot No. Gh 01 Sector 1, Greater Noida Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh- 201306, Also At : Plot No 36 37 First And Second Floor Nai Basti Wright Ganj GT Ghaziabad, Uttar Pradesh 201001

DESCRIPTION OF THE SECURED ASSETS/IMMOVABLE PROPERTIES: PLOT NO. 36 & 37. ENTIRE FIRST & SECOND FLOOR, AREA MEASURING 2625 SQ. FT., NAI BASTI, WRIGHT GANJ, GT ROAD GHAZIABAD, UTTAR PRADESH-201001. (OPPOSITE MMG HOSPITAL), MORE PARTICULARLY DESCRIBED IN SALE DEEDS DATED 09.11.2017. BOUNDED AS; EAST; ROAD, WEST; OTHERS PROPERTY, NORTH: PLOT NO.35, SOUTH: PLOT NO.37

Date: 04-09-2021

Place: Ghaziabad, Uttar Pradesh

SURAJ INDUSTRIES LTD CIN: 126943HP1992PLC016791

Regd. Office: Plot No. 2, Phase III, Sansarpur Terrace, Kangra, Himachal Pradesh-17321; Corporate Office: F-32/3, First Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020. Email id:- secretarial@surajindustries.org; Website- www.surajindustries.org

Sd/- Authorized Officer

For Tata Capital Financial Services Limited

Contact No: 01970-256414 NOTICE OF 29TH ANNUAL GENERAL MEETING In view of continuing Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its

General Circular Nos. 02/2021 dated January 13, 2021, read with General Circular Nos. 14, 2020, 17/2020, 20/2020dated April 8, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020 respectively MCA Circulars') permitted to hold Annual General Meeting (AGM) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") facility, without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and Rules framed thereunder, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements: Regulations, 2015 ["SEBI (LODR) Regulations"] read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1. CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11, Dated January 15, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular") and MCA Circulars, the Board of Directors of the Company has decided to convene the 29th AGM of the Company on Tuesday, September 28, 2021 at 3:30 P.M. through VC/OAVM facility,

without the physical presence of the Members at a common venue. To comply with the provisions of SEBI and MCA Circulars, the Notice of 29th AGM and Annual Report of the Company for the Financial Year ended March 31, 2021 along with login details for joining the AGM through VC / OAVM facility including e-voting will be sent only by e-mail to all those Members, whose e-mail address are already registered with the Company or Registrar and Share Transfer Agent or with their respective Depository Participants ("DP"). Members can join and participate in the AGM through VC/ OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members participating through VC / OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. The Notice of the 29th AGM and the Annual Report will also be made available on Company's website (www.surajindustries.org), Stock Exchange's website (www.bseindia.com) and on the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") (www.evotingindia.com).

The Company is providing remote e-voting (prior to AGM) and e-voting (during the AGM) facility to all its Members to cast their votes on all the resolutions set out in the Notice of AGM. Detailed instructions for remote e-voting and e-voting during the AGM is provided in Members holding shares in physical form and have not registered their e-mail address with the

Company, can register their e-mail address for receipt of Notice of AGM, Annual Report and login details for joining the AGM through VC / OAVM facility including e-voting by sending a request to Company's e-mail id at secretarial@surajindustries.org providing their name, folio number, scanned copy of the share certificate (front and back), self- attested scanned copy of the PAN card and self-attested scanned copy of Aadhar Card) in support for registering e-mail address. Members holding shares in demat form whose e-mail address are not registered are requested

for joining the AGM through VC / OAVM facility including e-voting with their DP only, as per the process advised by their DP. The registered e-mail address will also be used for sending future In case of any query regarding e-voting, Members may contact to Mr. Rakesh Dalvi, Manager (CDSL.) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex.

Mafatlal Mill Compounds, N.M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43 or write an e-mail to Compliance Officer of the Company at secretarial@surajindustries.org. The above information is being issued forthe information and benefit of all the Members of the Company and is in compliance with the MCA Circulars and SEBI Circular. By order of the Board of Directors of

Bhanumathy Ramachandran

PAN INDIA CORPORATION LIMITED (CIN:- L72200DL1984PLC017510)

Regd. Off.- 711, 7th Floor, New Delhi House, 27, Barakhamba Road, New Delhi - 110001 Email: srgltd@gmail.com, Website: http://www.panindiacorp.com Tel. No. 011-43656567 Notice of 37th Annual General Meeting, Book Closure and

NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting ('AGM') of the members of Pan India Corporation Limited will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual means ("OAVM") on Sunday, the 26th September, 2021 at 04:00 P. M. to transact the Ordinary Business, as set out in the Notice of AGM. The Notice of the Meeting, Annual Report for the Financial Year ended March 31, 2021 and remote e-voting details have been sent in electronic mode to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company/RTA/Depository. The date of completion of email of the notices to the shareholders is 02nd September, 2021.

instructions to register your email ID for obtaining Annual Report for Financial Year 2020-21 and

copy of the share certificate (Front and Back), PAN (Self attested scanned copy of PAN Card), AADHASR (Self attested scanned copy of Aadhaar Card) for registering email address.

110033) along with letter mentioning folio no. if not registered already. Demat Holding: Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address as per the process advised by DP. Please also update your bank detail with your DP for dividend payment by NACH if declare by company.

These documents are also available on Company's website www.panindiacorp.com for download

by the members. Notice is hereby given in compliance with the provisions of Section 108 of the

as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Company has offered e-voting facility for transacting all the business by National Securities Depository Limited (NSDL) through their portal www.evoting.nsdl.com to enable the members to cast their votes electronically. The remote e-voting period commences on Thursday, September 23, 2021 (10:00 A.M.) and ends on Saturday, September 25, 2021 (05:00 P.M.). No e-voting shall be allowed beyond the said date and time. During this period members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cutoff date of September 19, 2021, may cast their vote by remote e-voting. Any person, who acquires shares and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. September 19, 2021, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or RTA. Abhipra Capital Limited at rta@abhipra.com. However, if the members are already registered with NSDL for remote e-voting then they can use their existing user ID and password for casting their vote. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. The facility for voting through e-voting shall be made available at the AGM and the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. Mrs. Pritika Nagi, Practicing Company Secretary (Membership No. 29544 & CP No. 11279), Proprietor M/s. Pritika Nagi & Associates, Company Secretaries, has been appointed as Scrutinizer for the e-voting process. The detailed procedure for remote e-voting is contained in the letter sent with the Notice of the AGM. Any query/grievance relating to e-voting may be addressed to Ms. Ankita Mehrotra, Company Secretary and Compliance Officer, Pan India Corporation Limited, 711, 7th Floor, New Delhi House, 27, Barakhamba Road, New Delhi - 110001 Phone: 011-43656567, Email: panindiacorporationlimited@hotmail.com. NOTICE is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, Rule 10 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of the Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, September 20, 2021 to Sunday, September 26, 2021 (both days inclusive) for the purpose of taking record of the shareholders at the Annual General Meeting. For Pan India Corporation Limited

Company Secretary & Compliance Officer

Place: New Delhi

Date: 03.09.2021

Date: 03rd September, 2021

Place: New Delhi

Remote E-Voting information

n case you have not registered your email ID with the Company/ Depository, please follow below

Physical Holding: Send a request to Registrar and Transfer Agents of the Company. Abhipra Capital Limited at rta@abhipra.com providing Folio number, Name of the shareholder, scanned

Please send your bank detail with original cancelled cheque to our RTA (i.e. Abhipra Capital Limited, A-387, Abhipra Complex, Dilkhush Industrial Area, G.T. Karnal Road, Azadpur, Delhi

Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014

to register their e-mail address for receipt of Notice of AGM, Annual Report and login details

M/s Suraj Industries Ltd.

(Company Secretary)

lace: New Delhi Date: 3rd September, 2021

Chandigarh

name in place of Foundation. 1) Principal objects of the company after the revocation of license as per the provisions u/s 8(4)(ii) of the companies Act, 2013 shall be as To carry on the business of consultants and

2) A copy of the draft MOA & AOA of the proposed company may be seen at registered office: 4, Scindia House, New Delhi 110001.

Date: 03/09/2021 Director DIN: 02391716

Depository Participants ("Depository") and the Company's Registrar and Transfer

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on

a) the ordinary and special business, as set out in the Notice of the AGM, will

through the e-Voting system during the AGM, is Friday, 24th September, 2021

email address legal secretarial@sainikmining.com

Meeting of the Company. Rudra Sen Sindhu

Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of the Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, September 20, 2021 to Sunday, September 26, 2021 (both days inclusive) for the purpose of taking record of the shareholders at the Annua General Meeting. For Bits Limited Place: New Delhi Surendra Singh Tangar Date: 03rd September, 2021 Company Secretary & Compliance Officer

financialexp.ep4

Mr. Sharma Sunil Kumar (Borrower) Loan Account No. 605804838 "housand Seven Hundred and Seventy Two Only) dues as on 31-JUL-2021" with further interest @ 18% p.a. as applicable, incidental expenses, costs, charges etc incurred till the date of payment and / or realization. If the said Borrowers shall fail to make payment to HDFCLimited as aforesaid, then HDFC Limited shall proceed against the above Secured Asset(s) Immovable Property (ies) under Section 13 (4) of the said Act and the applicable Rules entirely at the risk of the said Borrower(s) / Legal Heir(s) / Legal Representative(s) as to the costs and consequences. The said Borrower (s) / Legal Heir(s) / Legal Representative(s) are prohibited under the said Act to transfer the aforesaid Secured Asset (s)

Place: New Delhi

Date: 03-09-2021

सूर्यास्तः ०६:४२

टिप्पर चालक का शव बरामद

धर्मशालाः चंबा जिले के तीसा मार्ग पर ट्रक को टक्कर मारकर गायब चल रहे टिप्पर चालक विजय कुमार का शव पुलिस ने कियाणी नाले से शव बरामद कर लिया है। भरमौर घाटी के मलकौता गांव का निवासी विजय 26 अगस्त को टिप्पर लेकर चंबा की तरफ आ रहा था कि ईंड नाले के पास लकड़ी से भरे ट्रक को टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गया था। लिहाजा वह तबसे लापता चल रहा था।

सरज इंडस्टीज लिमिटेड

सीआईएन : L26943HP1992PLC016791 पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट नं. २, फैज III, संसारपुर टेरेस, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश-173212 कार्योरिट कार्यालय : एफ-32/3, प्रथम तल, ओखला इंडरिट्यल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली-110020 ई-मेल आईडी : secretarial@surajindustries.org; वेबसाइट : www.surajindustries.org सम्पर्क र : 01970-256414

29वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

जारी कोविंदर-१९ महामारी को ध्यान में रखते हुए, कॉरपोरेट मामले मंजालय ('एमसीए') ने क्रमण: अपने परिपत्र मं. १४/२०२०, १७/२०२०, २०/२०२० क्रमणः हिनांक ८ अप्रैल, २०२०, १३ अप्रैल, २०२० तथा ५ मई, २०२० के साथ पंडित परिपन्न 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 ('एमसीए परिपन्न') के माध्यम से वीडियो कॉन्क्रेसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विक्अल साधनी ('ओएवीएम') द्वारा किसी कॉमन स्थान पर सदस्यों की घीतिक उपरियति के बिना वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने की अनुमति दी है। कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के प्रावधानी और उसके तहत बनाए गए नियमों, भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड हाग जारी परिष≆ सं. मेची/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई 2020 और संबो/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआएपी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 ('सेवी परिपत्र') के साथ पंडित सेची (सृष्वीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ['सेवी (एलओडीआर)' विनियम] एवं एमसीए परिपातें के अनुपालन में, कंपनी के निर्देशक मंडल ने मंगलवार, 28 सिलंबर, 2021 को 3:30 बाते अप. कंपनी को 29वीं वार्षिक आम बैठक वीसी/ओएबीएम सुविधा के माध्यम से बुलाने का निर्णय लिया है।

सेची और एमतीए परिपत्रों के प्रावधानों का पालन करने के लिए, ई-वीटिंग सहित वीसी/ओएक्ट्रिंग सुविधा के माध्यम में एनीएम में जामिल होने के लिए लॉगिन विवरण के साथ 20 वीं एनीएम की मुचना और 31 मार्च, 2021 को समात वितीय वर्ष के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट केवल उन सभी सदस्यों को ई-पेल द्वारा पेजी जाएगी, जिनका ई-मेल पता पहले से ही कंपनी या रजिस्ट्रार और शेयर अन्तरण एजेंट या उनके संबंधित दिपाजिटरी प्रतिधाणियों ('डीवें') के साथ पंजीकृत है। सदस्य केवल वीवी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल ही सकते हैं और भाग से सकते हैं। एतीएम में शामिल होने के निर्देश एतीएम की सुचना में दिए गए हैं। वीमी/ओएवीएम मुक्तिया के माध्यम से चाग लेने कले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कीरम की गणना के लिए की जाएमी। 29वीं एजीएम की सुचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट (www.surajindustries.org), स्टॉब एक्सचेंत्र की चेचसाइट (www.bscindla.com) और सेंट्रल हिपॉजिटरी सर्विसेत्र (इंडिपा) लिमिटेड ('सीडीएसएन') की वेबसाइट (www.evotingindia.com) पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।

कंपनी अपने सबी सदस्यों की एजीएम की सुचना में निर्धारित सभी प्रस्ताची पर वीट डालने के लिए रिमीट ई-मीटिंग (एजीएम से पहले) और ई-वोटिंग (एजीएम के दौरान) सुविधा प्रदान कर रही है। एजीएम की सुचना में एजीएम के दौरान रिमोट ई-मोटिंग और ई-मोटिंग के लिए पिरनुत निर्देश दिए गए हैं।

चीतिक रूप में शेवर रखने वाले और कंपनी के साथ अपना ई-मेल पता पंत्रीकृत नहीं कराने वाले सदस्य, ई-मेल चता दर्ज करने में सहायता हेतु एजीएम की स्चना, वार्षिक रिपोर्ट और ई-वोटिंग सहित बीसी/ओएवीएम मुविधा के माध्यम एजीएम में शामिल होने के लिए लॉगिन विचरण प्राप्त करने हेतु अपने नाम, फोलियो नंबर, शेयर सर्टिफिकेट को स्केन कॉपी (आगे और पीछे), पैन कार्ड की स्थ-सत्यापित स्केन कॉपी और आधार कार्ड की स्थ-सत्यापित स्केन की हुई कॉबी उपलब्ध कराते हुए कंपनी की ई-मेल आईडी secretarial@surajindustries.org पर अनुरोध भेजकर अपना ई-मेल पता पंजीकृत करा सकते हैं।

डीमैंट रूप में शेवर रखने वाले सदस्य जिनका ई-मेल पता पंजीकृत नहीं है, उनमें अनुरोध है कि वे एजीएम की मुचना, वार्षिक रिपोर्ट और ई-वोटिंग सहित वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के लिए गन विवरण प्राप्त करने के लिए अपना इं-मेल पता अपने डीपी द्वारा सलाह दी गई प्रक्रिया के अनुसार अपने डीर के साथ पंजीवृत करें। पंजीवृत ई-मेल पते का उपयोग पविष्य में संचार भेजने के लिए भी किया जाएगा। -बोटिंग के संबंध में किसी भी प्राप्त के मामले में, सदस्य श्री शकेश दलवी, प्रबंधक, (सीडीएसएल), सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मीजल, मैराधन फ्यूचरेक्स, घफतलाल मिल कंपाउंड्स, एनएम जोशी मार्ग, लोक्स परेल (पूर्व), मुंबई-बठटठाउ से संपर्क कर सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल चेजें वा 022-23058542/43 पर कॉल करें या कंपनी के अनुपालन अधिकारी की secretarial@surajindustries.org पर ई-मेल लिखें। उपरोक्त सूचना कंपनी के सची ग्रदायों को जानकारी और

> मैसर्स सुरज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक मंडल के आदेशानुसार

> > भानुमती गमचन्द्र (कम्पनी मुचिव

लाभ के लिए जारी की जा रही है और एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र के अनुपालन में हैं।

स्थान : नई दिल्ली निवि । 03.09.2021

कोरम के उद्देश्य माना जाएगा।

बाद अनुमति नहीं दी जाएगी।

रूचिरा पेपसे लिमिटेड CIN: L21012HP1980PLC004336

पंजी. कार्यालय और कर्मशालाः त्रिलोकपुर रोड, काला अम्ब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश- 173030, टेली: 91-8053800897

ईमेलः cs@ruchirapapers.com, www.ruchirapapers.com, 41वीं वार्षिक सामान्य बैठक और ई-वोटिंग जानकारी तथा किताब बंदी की सुचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी के सदस्यों की 41वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के द्वारा जारी किए गए सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 17/2020, 20/2020 और 02/2021 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई 2020 और 13 जनवरी, 2021 और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 क्रमशः दिनांक 12 मई, 2020, 15 जनवरी, 2021 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (आपत्तियों के सूचीकरण एवं प्रकृटीकरण अपेक्षाएं) विनियमों, 2015('सूचीकरण विनियमों') तथा कंपनी एक्ट, 2013 और इसके अधीन बनाए गए नियमों के सभी लागू प्रावधानों की अनुपालन में एजीएम सूचना दिनांक 13 अगस्त, 2021 में निर्धारित व्यापार को पूरा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से मंगलवार, 28 सितंबर, 2021 को दोपहर 12.00 बजे आयोजित की जाएगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों के लिए सूचना और निर्देश को नोट्स में एजीएम के नोटिस में बताया गय है और एजीएम में भाग लेने के लिए वेब लिंक https://instameet.linkintime.co.in है विसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत

एमसीए और सेबी के ऊपरकथित परिपत्रों की अनुपालना में, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए एजीएम सूचना और वार्षिक रिपोर्ट के साथ वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट, ऑडिटर की रिपोर्ट और संलग्न किए जाने वाले अन्य दस्तावेजों के साथ कंपनी के सभी सदस्य को 27 अगस्त, 2021 को भेज दी गई है जिनका ईमेल पता कंपनी या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट(ओं) के साथ पंजीकृत है। उपरोक्त दस्तावेज कंपर्न की वेबसाइट www.ruchirapapers.com पर और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों यानी बीएसइ लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड क्रमशः www.bseindia.com www.nseindia.com पर भी उपलब्ध हैं, वहां से डाउनलोड किया जा सकता है। एजीएम की सूचन लिंक इनटाईम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट www.instavote.linkintime.co.in प

सचीकरण विनियमों के विनियम 44 तथा बनाए गए संबंधित नियमों के साथ पठित अधिनियम की धार 108 के प्रावधानों अनुपालना में, कंपनी अपने सदस्यों को 41वीं एजीएम में अपने वोट के अधिका का प्रयोग करने के लिए सुविधा प्रदान कर रही है और एलआईआईपीएल द्वारा प्रदान की गई रिमोट ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से व्यापार पूरा किया जाना है। रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है। ई-वोटिंग की सुविधा भी एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी। एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य और जिन्होंने पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में वोट डालने के लिए अपनी मतदान का उपयोग करने में सक्षम होंगे। रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ एजीएम की तारीख पर ई-वोटिंग प्रणाली की सुविधा एलआईआईपीएल द्वारा प्रदान की जाएगी।

एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग द्वारा सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तारीख मंगलवार, 21 सितंबर, 2021 है। एक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वार बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज किया गया है, केवल ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने का हकदार होगा, एजीएम में वीसी/ओएवीएम या ई-वोटिंग के माध्यम से भाग ले सकेंगे। रिमोट ई-वोटिंग की अवधि शनिवार, 25 सितंबर, 2021 (सुबह 9 बजे) से शुरू होती है और सोमवार, 27 सितंबर 2021 (शाम 5.00 बजे) पर समाप्त होती है। रिमोट ई-वोटिंग को उक्त तिथि और समय के

भौतिक मोड या डिमैटेरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों द्वारा एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग का तरीका और सदस्यों जिन्होंने कंपनी के साथ अपने मेल पते को पंजीकृत/अपडेट नहीं किया है, वह एजीएम नोटिस में प्रदान किया गया है।

कोई भी व्यक्ति, जो एजीएम के नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बना है और कट-ऑफ की तारीख यानी मंगलवार, 21 सितंबर 2021 तक शेयर धारक है वह एजीएम के नोटिस में उल्लेख किय गए रिमोट ई-वोटिंग, ई-वोटिंग के लिए समान निदेशों का पालन कर सकता है। एजीएम के नोटिस में लॉगिन आईडी/यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया भी प्रदान की गई है।

जो सदस्य पहले ही एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल चुके हैं, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन फिर से एजीएम में वोट देने के हकदार नहीं होंगे।

सूचीकरण विनियम के विनियम 42 और अधिनियम की धारा 91 के अनुवर्ती एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स बुधवार, 22 सितंबर 2021 से मंगलवार, 28 सितंबर 2021 (दोनों दिन मिलाकर) एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगी।

ईमेल पतों को पंजीकृत/अद्यतन करने का तरीकाः

(क) भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत/अपडेट नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की हुई कॉपी कंपनी को cs@ruchirapapers.com पर ईमेल द्वारा भेजें।

l(i) उनके नाम, फोलियो नं और पता का उल्लेख करते हुए एक हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र; (ii) पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति और

(iii) सदस्य के पते के समर्थन में किसी भी दस्तावेज (जैसे, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव पहचान पत्र, पासपोर्ट) की स्व-सत्यापित प्रति।

(ख) डिमॉनेटाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत/अपडेट नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट(ओं) के साथ अपना ईमेल पता रजिस्टर/अपडेट करें।

उचित सत्यापन के बाद, कंपनी अपने पंजीकृत ईमेल पतों पर उनकी लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त करने की प्रक्रिया को आगे बढाएगी

यदि शेयरधारकों/सदस्यों के ई-वोटिंग के बारे में कोई प्रश्न हैं, तो वे अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्ने ('एफएक्यु') और www.instavote.linkintime.co.in पर उपलब्ध इंस्टा वोट ई-वोटिंग मैनुअल के हेल्प सैक्शन कं अंतर्गत देखें या enotices@linkintime.co.in पर एक ईमेल भेजें या पर दूरभाषः 022–4918 6000 पर संपर्क करें। यदि शेयरधारकों/सदस्यों के पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लॉगिन/ ई-वोटिंग के बारे में कोई प्रश्न हैं, तो वे instameet@linkintime.co.in पर एक ईमेल भेज सकते हैं या टेली: 022-49186175 पर संपर्क कर सकते हैं।

कते रूचिरा पेपर्स लिमिटेड स्थानः काला-अम्ब विशव सेठी (कंपनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी दिनांक: 03.09.2021

पराला मंडी जा रहे मंत्री चढ़े किसानों के हत्थे! संक्रमण से बीते 24

शिमला, ३ सितंबर (जनसत्ता)।

सेब की गिरती कीमतों और सेब बागवानों के साथ मंडियों में हो रही सरेआम लूट से गुस्साए किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आज, शुक्रवार को ठियोग में पराला मंडी जा रहे जय राम सरकार के दो मंत्रियों बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर और कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर का घेराव कर दिया व उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। <mark>बाग</mark>वानों ने दोनों मंत्रियों को उनकी सरकारी गाडी से बाहर उतरने के लिए मजबूर कर दिया और तीन घंटें तक उन्हें घेरे रखा।

किसान मोर्चा की ओर से आज दोपहर बारह बजे के लिए ठियोग में बागवानों की बैठक विश्राम गृह में बुलाई गई। इस दौरान यहां सड़क पर आ रहे इन किसानों को सायरन की आवाज सुनाई दी व सामने से आ रहे मंत्रियों की गाड़ियां देख कर वे सड़क पर ही खड़े हो गए। जब किसानों ने देखा कि गाड़ी में महेंद्र सिंह हैं तो उन्होंने उनसे बातचीत करने का आग्रह किया। लेकिन वह किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं हुए। इतने में विश्राम गृह में चल रही किसान मोर्चा की बैठक में आए किसान भी मौके पर पहुंच गए। जब दोनों मंत्री गाड़ी से उतरने को तैयार नहीं हुए तो बागवानों व

गुस्साए किसानों ने तीन घंटे जमकर लगाई लताड़

किसानों ने नारेबाजी शुरू कर और गाड़ी का घेराव कर दिया। किसानों ने मंत्रियों के खिलाफ 'वापस जाओ-वापस जाओ' के नारे लगाने शुरू कर दिए। जिससे सड़क पर जबरदस्त हंगामा हो गया और स्थिति कुछ हद तक तनाव पूर्ण भी होने लगी। जब दोनों मंत्री गाड़ी से नहीं उतरे तो इनके

साथ पराला मंडी जा रहे चौपाल से भाजपा विधायक बलबीर वर्मा और शिमला व किन्नौर एपीएमसी के अध्यक्ष नरेश शर्मा अपनी गाड़ियों से नीचे उतर गए और गुस्साए किसानों व बागवानों से बातचीत करने लगे। लेकिन किसान अपने बात पर अड़े रहे और नारेबाजी करने लगे। काफी हंगामे के बाद दोनों मंत्रियों को किसानों ने गाड़ी से नीचे उतारा और बातचीत के लिए विश्राम गृह ले गए। वहां तमाम किसानों ने महेंद्र सिंह को घेर कर उन पर एक के बाद एक सवालों की बौछार कर दी।

संयुक्त किसान मोर्चा के राज्य संयोजक हरीश चौहान ने कहा कि बागवानों को बुरी तरह से लुटा जा रहा है। मोर्चा कि अन्य नेता संजय

चौहान ने कहा कि आप लोग मंडियों में क्यों जा रहे हैं? आढ़तियों से क्यों मिल रहे हो? तकलीफ में तो किसान व बागवान हैं उनसे सरकार का कोई भी नुमाइंदा नहीं मिल रहा है। एक किसान ने महेंद्र सिंह से पूछ लिया कि आप इतने दिनों से कहां थे, तो उनसे जवाब देते नहीं बना। दरअसल महेंद्र सिंह ने पिछले दिनों कहा था कि बागवानों को सड़क के किनारे बोरी व क्रेट ले जाकर खुले में सेब बेचने चाहिए। इस पर भी बागवानों ने महेंद्र सिंह की खूब खिंचाई की। महेंद्र सिंह ने कहा कि उनके भी दो बगीचे है। इस पर एक बागवान ने कह डाला कि क्या वह भी अपने सेब सड़क में खुले में बेचते हैं। करीब तीन घंटों तक किसानों व बागवानों ने महेंद्र सिंह व वीरेंद्र कंवर की बुरी हालात कर दी।

इस बीच एक बागवान ने कहा कि उसके तीन लाख 70 हजार के सेब बिके है। उसे कुल साठ हजार दिए गए है। बाकी भूगतान कब होगा कोई पता नहीं है। करीब तीन घंटे तक चली बैठक के आखिर में महेंद्र सिंह ने कहा कि वह संयुक्त किसान मोर्चा को बैठक के लिए बुला रहे हैं और सरकार एपीएमसी एक्ट को पूरी तरह से व सख्ती से लागू करेगी। इसके बाद किसानों व बागवानों ने दोनों मंत्रियों को छोडा।

सूर्योदय: 05:59

शिमला, ३ सितंबर (जनसता)।

प्रदेश में कोरोना संक्रमण से पिछले 24 घंटों में चार मरीजों ने दम तोड़ा है। यह सभी मरीज जिला कांगडा से है। कोरोना संकमण से प्रदेश में अब तक मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 3,592 तक पहुंच गया है। बीती रात से लेकर अब तक प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 189 नए मामले सामने आए है और 206 मरीज ठीक हो गए है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मरीजों की संख्या 1,767 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 48 मरीज जिला कांगड़ा जबकि 46 मरीज जिला मंडी में सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से

जारी आंकड़ों के मुताबिक कांगड़ा में 87 साल के एक मरीज को

हिमाचल में स्थापित हुआ दबंग राज: मुकेश

कोविड न्यूमोनिया हो गया व उसकी हालात लगातार बिगड़ी व आखिर में उसने दम तोड़ दिया। 76 साल की एक महिला उच्च रक्तचाप से ग्रसित थी। उसे कोविड न्यूमोनिया हो गया और उसकी भी मौत हो गई। 61 साल के एक मरीज को मधुमेह के साथ सांस की बीमारी थी। कोविड न्यूमोनिया होने के बाद उसकी भी हालात बिगड़ती गई और उसकी भी मौत हो गई। इसके अलावा जिले में ही 72 साल के एक मरीज को सांस की तकलीफ हो रही थी। उसे कई और बीमारियां भी थी। कोविड होने के बाद उसकी हालात लगातार बिगडती गई व उसने भी दम तोड़ दिया। जिला कांगड़ा में अब तक सबसे ज्यादा मौतें हुई इन चार मौतों के साथ ही जिला में मरने वालों का आंकड़ा 1,067 तक पहुंच गया है।

'ग्रेट इंडिया सेल' लगा रही मोदी सरकारः रागिनी

शिमला, ३ सितंबर (जनसत्ता)।

नायक ने केंद्र सरकार पर राष्ट्रीय कहते हैं, करते उससे उलट हैं। मोदी मौद्रिकरण पाइपलाइन के तहत ग्रेट इंडिया सेल लगाने का इल्जाम लगाते हुए अगले 50 सालों तक देश की संपत्तियों को निजी हाथों में देने का रास्ता खोल दिया है। राजधानी में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में रागिनी ने यह दावा किया।

उन्होंने कहा कि पिछले सात सालों में मोदी सरकार ने कोई संपत्ति नहीं बनाई व उल्टा कांग्रेस की ओर से सत्तर सालों में बनाई गई संपत्तियों को अपने मित्रों को बेचने पर तुली हुई है। तमाम सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य राष्ट्रीय संपत्तियों को बेच

HIM SUCHNA AVAM JAN SAMPARK.

3815/HP

कर मोदी सरकार अपने चहेते कोराबारियों को की झोली भरने में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी लगी है। कहा, प्रधानमंत्री मोदी जो ने चुनावों में कहा था कि वे देश नहीं बिकने देंगे लेकिन अब देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है। तीन कृषि कानून बाद में बने लेकिन उनके चहेते उद्योगपतियों को गोदाम पहले बनने लग गए।

रागिनी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार देश विरोधी काम कर रही है व कांग्रेस इसके खिलाफ देशभर में जनता के बीच जाएगी। कांग्रेस मोदी सरकार के एनएमपी के खिलाफ आंदोलन करेगी और समाज के हर वर्ग के बीच जाकर उन्हें इस सरकार की असलियत बताएगी।

धर्मशाला, ३ सितंबर (जनसत्ता)।

'हिमाचल में दबंग राज स्थापित हो गया है। यह कहना है नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का। कांगड़ा जिले के सुलाह हलके से कांग्रेस के पूर्व विधायक जगजीवन पाल को थप्पड मारने को लेकर उन्होंने यह बात कही।

अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार में मुख्य संसदीय सचिव रहे जगजीवन को खुलेआम पीटा जा रहा है और धक्के दिए जा रहे हैं। लोकतंत्र में अब क्या विरोध का भी अधिकार नहीं रहा? उन्होंने सवााल किया, पाल के साथ हाथापाई करने वाले ये कौन लोग हैं? ऐसे लोगों को हिरासत में लेने के लिए प्रदेश सरकार तत्काल हरकत में नहीं आई तो इस मामले को लेकर कांग्रेस

राढौर, विक्रमादित्य ने लिया जय राम सरकार को आड़े हाथों

शिमला: जिला कांगड़ा के सुलह विधानसभा हलके की राड़ पंचायत में 31 अगस्त को हुए विवाद के दौरान कांग्रेस के पूर्व विधायक जगजीवन पाल को थप्पेंड मार देने के मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राटौर और कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने जय राम सरकर को आड़े हाथों लिया है। राठौर ने कहा कि 'प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। पूर्व विधायक के साथ भाजपा से जुड़े कुछ लोगों की ओर से की गई धक्का मुक्की व अभद्र व्यवहार निदनीय है। प्रदेश में जंगल राज चल रहा है जहां सत्ता से जुड़े भाजपा के लोग कही भी किसी से भी मार पिटाई कर रहें है।' राठौर ने पुलिस की मौजूदगी में कांग्रेस नेता के साथ बदसलूँकी करने पर हैरानी जताते हुए कहा है कि इससे साफ है कि ऐसे लोगों को सरकार का पूरा सरंक्षण है। वहीं,

विक्रमादित्य सिंह ने भी इस प्रकरण की आलोचना करते हुए प्रशासन से दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने कहा कि सत्ता से जुड़े कुछ लोग आए दिनों उपद्रव फैलाने में लगे है जो कानून व्यवस्था को खुली चुनौती है।

पार्टी पूरे प्रदेश में भाजपा सरकार का विरोध करेगी।

गौरतलब है कि बीत रोज सोशल मीडिया में जगजीवन के साथ सुलाह में मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद अग्निहोत्री, जीएस बाली समेत जिले के तमाम कांग्रेसी नेताओं ने सरकार के खिलाफ तीखे बयान जारी किए हैं। दरअसल विधानसभा

अध्यक्ष विपिन परमार का अपने चुनावी क्षेत्र सुलाह के रढ़ा गांव में दान की किसी जमीन पर पंचायत घर का शिलान्यास कार्यक्रम था। कहा जा रहा है कि इसके लिए किया गया। लिहाजा विरोधस्वरुप सरपंच और वार्ड सदस्यों के साथ जगजीवन धरने पर बैठ गए।

कार्यकर्ताओं के साथ बहसबाजी के बीच किसी ने पाल को थप्पड रसीद कर दिया। इस पर अग्निहोत्री ने कहा कि अगर किसी काम को पंचायत नही चाहती और पंचायती नुमाइंदों को सूचित नहीं संवैधानिक पद पर बैठा एक व्यक्ति वहां काम करवाना चाहता हैं तो इसका मतलब यह नही है कि आप विरोधियों को धक्के मारेंगे।

HPPWD TENDERS

Sealed item rate tenders on forms 6 & 8 are hereby invited by the Executive Engineer, Dharamshala Division, HP.PWD. Dharamshala for the below mentioned works from the approved and eligible contractors enlisted in HPPWD so as to reach in his office on or before 20.09.2021 upto 11:00 AM and the same shall be opened on the same day at 11:30 AM in the presence of the tender opening committee and intending contractors/firms or their authorized representatives. The tender documents can be had from this office against cash payment/Non refundable) up to 4:00 P.M. on 18.09.2021. The applications for issue of tender

The Earnest Money in the shape of NSC's / FDR's Deposit/Bank Guarantee at Call of any of the Post office/Bank duly pledged

Sr. No.	Name of Work	Estimated cost in Rs.	EMD	Time limit	Cost of Tender form
1	Special repair to Zonal Hospital Complex at Dharamshala in Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra HP (Deposit work) (SH:- Balance work for Construction of PCC Retaining wall in front of OPD block at RD 31.90 to 36.90, boulder filling and earth filling at RD 0/000 to 36.90)	498666.00	10000.00	Three Months	350/-
2	District TB Centre Old Lab Block Zonal Hospital Dharamshala in Distr. Kangra HP (Deposit work) (SH:- Straightening of building, plinth protection, PCC work, Plastering, Tile flooring, Distempering & minor repairs work)	287380.00	5800.00	Three Months	350/-
3	Improvement of Dharamshala Khaniyara Road in km 0/000 to 8/000 in Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra HP (Deposit work) (SH:-Balance work for Providing & fixing steel work and prepainted sheet along with Road side from RD 2/930 to 3/115)	422844.00	8500.00	Three Months	350/-
4	Annual Repair and Maintenance of Dharamshala Dadh Palampur Holta Chadiyar Road (portion Dharamshala to Dadh km 0/000 to 15/250) in Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra HP <u>Against Payment of bitumen material</u> (Deposit work) (SH:-Providing and Laying mastic asphalt wearing course on bridge (i) Manjhi Khad bridge at RD 3/315 (ii) Ghiari Khad bridge 6/585 (iii) Churan Khad bridge at RD 1/374)	499401.00	10000.00	Two Months	350/-
5	Annual Repair and Maintenance of Dharamshala Dadh Palampur Holta Chadiyar Road (portion Dharamshala to Dadh km 0/000 to 15/250) in Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra HP Against Payment of bitumen material (Deposit work) (SH:-Providing and Laying mastic asphalt wearing course on bridge (i) Daroon Khad bridge at RD 8/765 (ii) Baner Khad bridge at RD 14/625)	457380.00	9200.00	Two Months	350/-
6	Renovation of D.T.O. & Deputy Director Office Building at Dharamshala in Distt. Kangra HP (Deposit work) (SH:- Balance work for Porch, visiter shed, paverblock and M.S. grating)	476975.00	9550.00	Three Months	350/-
7	Construction of link Road village Upper Dar in Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra HP Under SCSP (SH:- Construction of Cement concrete Paveement at RD 0/700 to 0/760 and 0/910 to 1/030)	498317.00	10000.00	Three Months	350/-
8	Construction of Govt. Senior Secondary School Kasba Narwana in Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra HP (Deposit work)(SH :- Balance work for protection of School building)	331149.00	6650.00	Three Months	350/-
9	Construction of Link Road village Dhiyal to Bhatallah road in km 0/000 to 2/000 in Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra HP <u>against Cost of Bitumen</u> (Deposit work) (SH:- Providing and laying Cement Concrete Pavement at RD 0/780 to 0/840 and 0/060 to 1/110)	497904.00	10000.00	Three Months	350/-
10	Beautification of Shahid Durga Mal Dal Bahadur Park in Dari in Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra HP (Deposit work) (SH:- Repair of Pavement and foot path)	176189.00	3550.00	Three Months	350/-
11	Construction of Link Road village Dhiyal to Bhatallah road in km 0/000 to 2/000 in Tehsil Dharamshala, Distr. Kangra HP <u>against Cost of Bitumen (Deposit work)</u> (SH:- Providing and laying W.B.M. Grade - I, Cement Concrete Pavement at Various RDs)	474277.00	9500.00	Three Months	350/-
12	Construction of Road from BSNL Telecom Complex (Near Circuit House) to link with GCDM road near C.E. (KZ) residence km 0/000 to 0/915 (Sanjay Marg Ward No. 6) in Tehsii Dharamshala, Distt. Kangra HP (Deposit work against Smart City) (SH:-Providing and Laying Cobbie Stone flooring at RD 0/075 to 0/122)	499850.00	10000.00	Three Months	350/-
13	Construction of Road from BSNL Telecom complex (Near Circuit House) to link with GCDM road near C.E. (KZ) residence km 0/000 to 0/915 (Sanjay Marg Ward No. 6) in Tehsil Dharamshala, Dist. Kangra HP (Deposit work against Smart City) (SH:-Providing and Laving Cobble Stone flooring at RD 0/122 to 0/135 and	498637.00	10000.00	Three Months	350/-

forms shall be received upto 1:00 P.M. on 17.09.2021.

in favour of XEN HPPWD., Dharamshala must be accompanied with the tender documents. Please note that no exemption orders of earnest money will be entertained. Conditional tenders and the tenders received without earnest money as mentioned above will summarily be rejected. The offer of the tenders shall be kept open for 90 days. The Executive Engineer reserves the right to reject any tender or all tenders without assigning any reasons. The contractors should be registered as a dealer under H.P. Sales Tax Act, 1962 and also produce the clearance certificate from the Excise and Taxation department. The tender documents shall only be issued to those contractors/firms who will produce the photo copy of their enlistment/renewal, if it happens to be a holiday on the day of opening of tenders the same will be opened on the next working day at the same time and

Sr. No.	Name of Work	Estimated cost in Rs.	EMD	Time limit	Cost of Tender form
1	Special repair to Zonal Hospital Complex at Dharamshala in Tehsil Dharamshala. Distt. Kangra HP (Deposit work) (SH:-Balance work for Construction of PCC Retaining wall in front of OPD block at RD 31.90 to 36.90, boulder filling and earth filling at RD 0/000 to 36.90)	498666.00	10000.00	Three Months	350/-
2	District TB Centre Old Lab Block Zonal Hospital Dharamshala in Distr. Kangra HP (Deposit work) (SH:- Straightening of building, plinth protection, PCC work, Plastering, Tile flooring, Distempering & minor repairs work)	287380.00	5800.00	Three Months	350/-
3	Improvement of Dharamshala Khaniyara Road in km 0/000 to 8/000 in Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra HP (Deposit work) (SH:- Balance work for Providing & fixing steel work and prepainted sheet along with Road side from RD 2/930 to 3/115)	422844.00	8500.00	Three Months	350/-
4	Annual Repair and Maintenance of Dharamshala Dadh Palampur Holta Chadiyar Road (portion Dharamshala to Dadh km 0/000 to 15/250) in Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra HP <u>Against Payment of bitumen material</u> (Deposit work) (SH:-Providing and Laying mastic asphalt wearing course on bridge (i) Manjhi Khad bridge at RD 3/315 (ii) Ghiari Khad bridge 6/585 (iii) Churan Khad bridge at RD 1/374)	499401.00	10000.00	Two Months	350/-
5	Annual Repair and Maintenance of Dharamshala Dadh Palampur Holta Chadiyar Road (portion Dharamshala to Dadh km 0/000 to 15/250) in Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra HP Against Payment of bitumen material (Deposit work) (SH:-Providing and Laying mastic asphalt wearing course on bridge (i) Daroon Khad bridge at RD 8/765 (ii) Baner Khad bridge at RD 14/625)	457380.00	9200.00	Two Months	350/-
6	Renovation of D.T.O. & Deputy Director Office Building at Dharamshala in Distt. Kangra HP (Deposit work) (SH:- Balance work for Porch, visiter shed, paverblock and M.S. grating)	476975.00	9550.00	Three Months	350/-
7	Construction of link Road village Upper Dar in Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra HP Under SCSP (SH:- Construction of Cement concrete Paveement at RD 0/700 to 0/760 and 0/910 to 1/030)	498317.00	10000.00	Three Months	350/-
8	Construction of Govt. Senior Secondary School Kasba Narwana in Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra HP (Deposit work)(SH :- Balance work for protection of School building)	331149.00	6650.00	Three Months	350/-
9	Construction of Link Road village Dhiyal to Bhatallah road in km 0/000 to 2/000 in Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra HP <u>against Cost of Bitumen</u> (Deposit work) (SH:- Providing and laying Cement Concrete Pavement at RD 0/780 to 0/840 and 0/060 to 1/110)	497904.00	10000.00	Three Months	350/-
10	Beautification of Shahid Durga Mal Dal Bahadur Park in Dari in Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra HP (Deposit work) (SH:- Repair of Pavement and foot path)	176189.00	3550.00	Three Months	350/-
11	Construction of Link Road village Dhiyal to Bhatallah road in km 0/000 to 2/000 in Tehsil Dharamshala, Distr. Kangra HP <u>against Cost of Bitumen</u> (Deposit work) (SH:- Providing and laying W.B.M. Grade - I, Cement Concrete Pavement at Various RDs)	474277.00	9500.00	Three Months	350/-
12	Construction of Road from BSNL Telecom Complex (Near Circuit House) to link with GCDM road near C.E. (KZ) residence km 0/000 to 0/915 (Sanjay Marg Ward No. 6) in Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra HP (Deposit work against Smart City) (SH:-Providing and Laying Cobble Stone flooring at RD 0/075 to 0/122)	499850.00	10000.00	Three Months	350/-
13	Construction of Road from BSNL Telecom complex (Near Circuit House) to link with GCDM road near C.E. (KZ) residence km 0/000 to 0/915 (Sanjay Marg Ward No. 6) in Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra HP (Deposit work against Smart City) (SH:-Providing and Laying Cobble Stone flooring at RD 0/122 to 0/135 and Cement Concrete pavement at RD 0/135 to 0/210)	498637.00	10000.00	Three Months	350/-

HP.PWD., Dharamshala.

On behalf of Governor of Himachal Pradesh. Executive Engineer, Dharamshala Division,

सुंदरनगर में ब्स में सवार युवक से 35

मंडी, ३ सितंबर (जनसता)।

मंडी पुलिस की एसआइयू को चिट्टा माफिया के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने चंडीगढ़-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर एक निजी बॉल्वो बस में सफर कर रहे एक 23 वर्षीय युवक से 35.76 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने युवक को गिरफ्तारक उसके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू

कर दी है। प्राप्त जानकारी के मंडी जिला की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हेड कांस्टेबल टेक चंद की अगवाइ में शुक्रवार को चंडीगढ-मनाली नेशनल हाईवे-21 पर सुंदरनगर में नाकाबंदी पर मौजुद थी। इसी दौरान जब दिल्ली से मनाली जा रही वॉल्वो बस न्यू हिमालया को जांच के लिए जब रोका तो उसमें सवार एक युवक के बैग से 35.76 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। युवक की पहचान भुंतर के खोखन के गांव तेगू बेहड़ डाकघर खोखन के अमन के तौर पर हुई है।

इधर, सुंदरनगर दिनेश कुमार ने मामले की पृष्टि करते हुए बताया कि युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 में मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले में जांच जारी है। उन्होंने कहा कि मामले में आगामी जांच पुलिस थाना सुंदरनगर द्वारा अमल में लाई जा रही है।

जय राम ने सराहां को दी सौगातें और कहा, अब भाजपा विधायक को चौथी बार जिताएं

पांवटा साहिब, ३ सितंबर (जनसता)।

'सिरमौर के सराहां को दी 315 करोड़ की 55 योजनाओं की सौगात, अब भाजपा विधायक को चौथी बार जिताएं।' यह कहना है मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर का। शुक्रवार को अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने सारा और सिलाई में कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं का शिलान्यास किया।

इस मौके पर उन्होंने सिरमौर में ऐसी कई योजनाओं को अमलीजमा पहनाने के लिए घोषणा की जिनके कारण यहां के लोगों का विकास रुका हुआ था। उन्होंने बदले में पच्छाद विस से भाजपा के विधायक को चौथी बार जीत का चौका लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 चुनावों में चौथी बार पच्छाद से विधायक को जिताकर भेजना है।

मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उपचुनाव में अब पच्छाद के लोगों की लाटरी लग गई थी। उप चुनाव के दौरान उनको एसडीएम ऑफिस व पीडब्ल्युडी का डिवीजन ऑफिस सहित अनेकों सौगातें दी थी। इसके बाद उन्होंने पच्छाद विधानसभा क्षेत्र की विधायक तथा सांसद की मांग पर कई घोषणाएं की। उन्होंने सराहां सिविल अस्पताल को 100 बिस्तरों का करना समेत कई घोषणा की।

तोक्यो पैरालपिक में रजत पदक विजेता निषाद पहुंचे पैतृक गांव

धर्मशाला, ३ सितंबर (जनसत्ता)।

तोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीतने वाले निषाद का भव्य स्वागत किया गया। ऊना जिले के अंब उपमंडल के पैतृक गांव बदाऊं में पिछले डेढ़ साल से बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों ने निषाद का शुक्रवार को नायक के तौर पर ढोल-धमाके के साथ इस्तकबाल किया।

इससे पहले जिले के प्रवेशद्वार मेहतपुर पर समर्थकों समेत वित्तायोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने निषाद की अगवानी की। ऊंची कूद स्पर्धा में एक अरसे से पंचकूला में प्रशिक्षण लेने और पैरालंपिक में कामयाबी के झंडे गाढने के दरम्यान निषाद का अपने पैतृक काफी देर आना हुआ। लिहाजा पैरालंपिक पदक जीतने का दोगुना उल्लास गांव में जश्न की तरह मनाया गया। धुसाड़ा से लेकर अंब तक लोगों के हुजूम से निकल घर की दहलीज गले मिलते ही मां की आंखों से खुशी के आंसू छलक आए।

याद रहे कटोहड़ खुर्द स्थित देवीदास शास्त्री सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में 2002 को नर्सरी में दाखिला लेने के बाद 2014-15 में दसवीं तक की पढ़ाई के दौरान लंबी व ऊंची कूद स्पधाओं के अव्वल खिलाड़ी निषाद रहे छठी में पढ़ते वक्त घर में चारा मशीन से दायां बाजु कट गया था। इस शारीरिक झटके के थोड़े समय के बाद ही खेल को निषाद ने जुनून बना लिया

परेशानियों के दौर झेलते कुछ कर दिखाने की मन में ठानीः निषाद

इधर मीडिया से बात करते निषाद का कहना था कि बचपन से परेशानियों का दौर झेलते उन्होंने कुछ कर दिखाने की मन में टान रखी थी लिहाजा पदक की सफलता में मेरे परिवार का परिश्रम, हिमाचल सरकार और स्कूल समिति के लोग शामिल है जिन्होंने उसे निषाद बनाने में अपना योगदान दिया। तोक्यों में अपने प्रदर्शन को लेकर वे कहते हैं कि मुकाबले के दौरान चार बार स्कोरबोर्ड को देखने के बाद उसे रजत पदक का यकीन हुआ। दिव्यांगों से निषाद का कहना है कि शारीरिक रूप से कोई विकलांग हो सकता है, लेकिन मानसिक रूप से उसे नहीं होना चाहिए। हौसला और दिल को मजबूत बनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए।

और स्कूली स्तर पर खेलते हुए निषाद पांच राज्यों की खेलों में स्वर्ण पदक जीते। बताते हैं कि घर की हालत ठीक नहीं होने के चलते प्रिंसिपल मीनाक्षी शर्मा ने निशुल्क ट्यूशन देकर निषाद को पढ़ाई से जोड़े रखा तो स्कूल समिति के वित्त सचिव जेआर शर्मा ने खेल प्रतिभा को निखारने के लिए निषाद को अपने खर्चे पर खेल प्रतियोगिताओं में भेजा व पढ़ाई का खर्च भी उठाया।

Chandigarh

www.readwhere.com